



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-31122024-259753
CG-RJ-E-31122024-259753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5219]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 5219]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 30 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5639(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-ii), दिनांक 8 नवंबर 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग) की अधिनियम संख्या का आ. 4864 (अ) दिनांक 08 नवंबर 2024 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “तरंगा हिल—अंबाजी-आबू रोड नई बड़ी रेल लाइन की विशेष रेल परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20 अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् “दिव्य भास्कर” में तारीख 22 नवंबर 2024 और और संदेश में तारीख 22 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को इस परियोजना में तय समय में कोई भी आक्षेप, प्राप्त नहीं हुए।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20इ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

ROB (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 41 - 43 के लिए भारतीय रेल की विशेष रेल परियोजना तरंगा हिल- अंबाजी - आबू रोड के बीच नई बड़ी लाइन गुजरात राज्य के लिए संरचना सहित या संरचना रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला का नाम : महेसाणा							
संख्या	तहसील	गांव	नया खसरा संख्या	पुराना खसरा संख्या	भूमि के प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	सतलासणा	मोटा कोठासना	13.001		व्यक्तिगत	कृषि	222
2	सतलासणा	मोटा कोठासना	9	3P3	व्यक्तिगत	कृषि	243
3	सतलासणा	मोटा कोठासना	35	6P4/P1	व्यक्तिगत	कृषि	1711
4	सतलासणा	मोटा कोठासना	37	6P3	व्यक्तिगत	कृषि	880
5	सतलासणा	मोटा कोठासना	18	5P9	व्यक्तिगत	कृषि	230
6	सतलासणा	मोटा कोठासना	6.001	3P3/P1	व्यक्तिगत	कृषि	252
7	सतलासणा	मोटा कोठासना	22.001		व्यक्तिगत	कृषि	1171
8	सतलासणा	मोटा कोठासना	32	6P6	व्यक्तिगत	कृषि	865
9	सतलासणा	गोठडा	296	104/21	व्यक्तिगत	कृषि	4
10	सतलासणा	गोठडा	309	104/15	व्यक्तिगत	कृषि	1

11	सतलासणा	बेडस्मा	279	149/P2	व्यक्तिगत	कृषि	1453
अवास की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)							7032
अवास की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेअर)							0.7032

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-11]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway(Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 30th December, 2024

S.O. 5639(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railway (North Western Railway Construction), S.O. No. 4864 (E) dated 08 November , 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub Section (ii) on dated 8 November , 2024 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (i) of section 20A of the Railways Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance and operation of the Special Railway Project, namely "Taranga Hill –Abu Road Via Ambaji (116.65 km) NEW BG LINE Project District- Mehsana in the State of Gujar

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Divya bhaskar” and Sandesh on date 22 November, 2024 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection were received by the Competent Authority within due time.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

For ROB(Road Over Bridge) no. 41 & 43

Brief description of the Land to be acquired, with or without Structure for Special Railway Project of Indian Railways
Namely, New BG Line Project Between Taranga Hill-Ambaji-Abu Road

Name of District - Mehsana

Sr. No.	Taluka	Village	New Survey No.	Old Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area (In Sq.mt)	Name of Land Owner / Intrested Persons
1	Satlasana	Kothasana mota	13.001		Private land	Agriculture	222	Patel Prabhudas Joitabhai
2	Satlasana	Kothasana mota	9	3P3	private land	Agriculture	243	Suthar Gorghanbhai Ravabhai, Suthar Joitabhai Kacharabhai
3	Satlasana	Kothasana mota	35	6p4/p1	Private land	Agriculture	1711	Patel Ambalal Bhaichandbhai
4	Satlasana	Kothasana mota	37	6p3	Private land	Agriculture	880	Patel Puriben Kantibhai, Patel Bhavnaben Kantibhai, Patel Ranjanben Kantibhai, Patel Shilpaben Kantibhai, Patel Ashaben Kantibhai
5	Satlasana	Kothasana mota	18	5p9	Private land	Agriculture	230	Patel Kamleshbhai Kodarbhai
6	Satlasana	Kothasana mota	6.001	3p3/p1	Private land	Agriculture	252	Suthar Chanchiben Chhaganbhai
7	Satlasana	Kothasana mota	22.001		Private land	Agriculture	1171	Patel Kantabehan Bhikhabhai, Patel Nileshkumar Bhikhabhai, Patel Bharatkumar Bhikhabhai
8	Satlasana	Kothasana mota	32	6p6	Private land	Non Agriculture	865	Patel Sureshbhai Babubhai
9	Satlasana	Gothara	296	104/21	Private land	Agriculture	4	Patel Somabhai Mankabhai, Patel Arvidbhai Somabhai, Patel Rakesh Kumar Sombhai, Patel Waliben Sombhai
10	Satlasana	Gothara	309	104/15	Private land	Agriculture	1	Patel Revaben Devabhai
11	Satlasana	Bedasma	279	149/p2	Private land	Agriculture	1453	Chauhan Gangaba Ajmalsingh, Chauhan Sumansingh Ajmalsing, S.P.K.Gangaba (DattK putra)
Total area of land to be acquired (sq. mtrs)							7032	
Total area of land to be acquired (ha)							0.7032	

[File No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XI]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)